पंजाब / हरियाणा राजधाना

खबर कोना

किसान शांतिपूर्ण ढंग से करें महापंचायतः विज

चंडीगढ़, ६ सितंबर (जनसत्ता)।

चंडीगढ़: हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारत प्रजातांत्रिक देश है। इसमें सबको अपनी अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान अगर मंगलवार को करनाल में प्रदर्शन कर रहे हैं तो वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने मंगलवार की किसान महापंचायत को देखते हुए सभी इंतजाम कर रखे हैं। आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए रूट बदले गए हैं। उन्होंने बताया कि एडीजीपी लॉ एंड आर्डर नवदीप विर्क को निर्देश दिए गए हैं कि वह खुद कल करनाल में रहकर स्थिति की निगरानी रखें। इंटरनेट सेवा बंद करने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि कुछ शरारती तत्व इस महापंचायत की आड़ में गलत फायदा उटा सकते हैं। इंटरनेट व सोशल मीडिया पर गलत अफवाहे फैलाकर कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है। जिसके चलते इंटरनेट को बंद करने का फैसला किया गया है।

एनसीआर में बंद होंगे 15 साल पुराने वाहनः मूलचंद

चंडीगढ़, ६ सितंबर (जनसता)।

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार एनसीआर के जिलों में जल्द ही नई स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने जा रही है। इसके चलते डीजल से चलने वाले दस साल से पुराने तथा पैट्रोल से चलने वाले 15 साल से पुराने वाहनों को बंद किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों की बैठकें लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मूल चंद शर्मा ने कहा कि एनसीआर के प्रदूषण को देखते हुए इस फैसले को कड़ाई से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से एनसीआर में दाखिल होने वाले पुराने वाहनों को लेकर नियम को संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है ताकि दिल्ली जाने वाले लोगों पर असर न पडे।

रिजर्व बैंक के दो कैंटर भिड़े, बीच में फंसी कांस्टेबल

घायल महिला पुलिस कर्मी की टांगों का आपरेशन जारी, 400 करोड़ की नकदी ले जाई जा रही थी इनमें

चंडीगढ़, ६ सितंबर (जनसत्ता)।

शहर में सोमवार को मध्य मार्ग पर भारतीय रिजर्व बैंक के दो कैंटरों के बीच भिड़ंत में पिछले कैंटर में सामने वाली सीट पर बैठी महिला कांस्टेबल लोहे की बीच में फंस गई जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं हैं। हादसा दोपहर के समय सेक्टर 26 के पास हुआ।

हादसे की सूचना पाकर तुरंत दमकल विभाग की टीम, पुलिस टीम, एंबुलेंस सहित टैफिक जवान भी मौके पर पहुंच गए। एक घंटे तक चली कडी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से लोहे को तोड़कर महिला कांस्टेबल को बाहर निकाला गया और उन्हें पीजीआइ ले जाया गया, जहां उनका आपरेशन चल रहा है।

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक की सेक्टर-17

स्थित शाखा के नकदी से लंदे पांच केंटरों में से दो केंटरों के आपस में भिड़ने से एक केंटर में सवार 25 वर्षीय महिला कांस्टेबल वहीं फंस गई और उसकी टांगों पर काफी चोटें आई हैं। हादसे में घायल कांस्टेबल पापिता को पीजीआइ लेजाया गया जहां डाक्टरों ने बताया कि फिलहाल उनकी सर्जरी चल रही है। इस हादसे में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है जबिक दोनों केंटरों के चालकों को मामुली चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों चालकों गुरभेज सिंह और तजिंदर सिंह के खिलाफ लापहवाही से और तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। घायल कांस्टेबल पापिता गुरभेज सिंह के केंटर में बैठी हुई थी। हादसे के बाद गुरभेज सिंह को पुलिस ने आराम से निकाल लिया लेकिन पापिता की टांगे पीछे की सीट में फंस गई थीं।

दरअसल दोनों कैंटर साथ में जा रहे थे और



सेक्टर 26 में अचानक आगे वाले कैंटर चालक ने ब्रेक लगाई। जिसकी वजह से पीछे वाला कैंटर चालक असंतुलित होकर तेजी से जा टकराया। हादसे में पीछे वाले कैंटर का फ्रंट साइड ट्रकर अंदर की तरफ दब गया। जिसमें डाइवर सीट के



बगल बैठी महिला कांस्टेबल फंस गई।

हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए वाहन से पापिता को काफी मुश्किल से निकाला गया। यह हादसा करीब ढाई बजे हुए। इन पांचों केंटरों में 400 करोड की नगदी ले जाई जा रही थी।

चश्मेदीदों ने पुलिस को बताया कि पांचों केंटर एक कतार में ही जा रहे थे तभी कतार में तीसरे नंबर पर चल रहे केंटर के चालक ने ओवरटेक करने के लिए अचानक वाई तरफ वाहन मोड़ लिया जिससे पिछले चल रहा केंटर की उससे जबरदस्त टक्कर हो गई चौथे केंटर में पापिता बैठी हुई थी। उनके केंटर का चालक सही समय पर ब्रैक नहीं लगा पाया और वाहन ्र कतार में चल रहे तीसरे केंटर से जा टकराया।

डीएसपी गुरमुख सिंह ने बताया 'सभी केंटरों में सुरक्षा की दृष्टि के पुलिस कर्मचारी बैठे हुए थे। सुरक्षा कारणों से ही आरबीआई के नगदी वाले वाहन एक कतार में ही चलते हैं। इस हादसे में एक घंटे तक बचाव कार्य चला। दोनों चालकों और कांस्टेबल राम सिंह की हालत स्थिर है। जबिक पापिता को दोनों टांगों के घुटनों ने नीचे गेहरी चोटें लगीं हैं। जब उसे क्षतविक्षत वहान से खींच कर वाहन से बाहर निकाला गया तो उसकी टांगे चल नहीं रहीं थीं। अभी उनका अपरेशन चल रहा है।'

हरियाणा में संक्रमण से एक दिन में दो मरीजों की मौत

पंचकूला, ६ सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा में सोमवार को कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में कुल 7,70,573 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं जबिक 9,685 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब कुल 273 मामले सिक्रय बचे हैं।

प्रदेश में आज महेंद्रगढ़ में दो लोगों की मौत हुई है। जबिक संक्रमण के सबसे अधिक मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। यहां 5 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। जबकि अंबाला और पंचकुला में ४-४, करनाल-पानीपत-भिवानी में 1-1 संक्रमण का मामला सामने आया है।

प्रदेश में अब तक 1,72,37,145 लोगों को कोरोनारोधी टीका लग चुका है। आज 78,049 लोगों को पहली ख़ुराक जबिक 42,360 लोगों को दूसरी खुराक लग चुकी है।

पंजाब में 24 घंटे में एक की गई जान

चंडीगढ़ : पंजाब में सोमवार को कोरोना संक्रमण से एक शख्स की मौत हो गई जबकि संक्रमण की चपेट में 38 लोग आए हैं। अब तक पंजाब में 6,00,849 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 16,444 लोगों की मौत संक्रमण से हो चुकी है जबकि सक्रिय मामले 326 बचे हैं। अब तक कुल 1,36,37,259 लोगों के नमूनों की जांच हो चुकी है जबकि 5,84,079 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में लुधियाना जिले में एक मौत का समाचार ैह जबिक 46 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं, आज आए मामलों में बिंडा में 7, लुधियाना में 5, अमृतसर-कपूरथला में 4–4, पटियाला–मोहाली में 3–3, होशियारपुर-जलंधर में 2-2, फरीदकोट-गुरदासपुर-मुक्तसर-एसबीएस नगर-तरनतारन में 1-1 जबिक बरनाला-फिरोजपुर-फतेहगढ़ साहिब-मानसा-मोगा-

पठानकोट-रोपड़-संगरूर में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब तक लुधियाना में 87,488 मामले 📁 सामने आ चुके हैं जिनमें से 85,363 लोग ठीक हो चुके हैं जबिक कुल 2,098 लोगों की मौत हो चुकी है। मोहाली में 68,637 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 67,534 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 1,060 लोगों की जान चली गई है। जलंधर में 63,244 लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि 61,724 लोग ठीक हो चुके हैं वहीं, 1,494 लोगों की जान जा चुकी है। पटियाला में 48,827 संक्रमण की चपेट में, 47,460 लोग स्वस्थ लाभ ले चुके हैं जबिक 1,347 की मौत हो चुकी है। अमृतसर में 47,254 संक्रमित, 45,647 ठीक और 1,589 की मौत हो चुकी है। बढिंडा में 41,651 संक्रमण की चपेट में 40,580 लोग ढीक हो चुके हैं जबकि 1,041 की मौत हो चुकी है। होशियारपुर में 30,743 चपेट में, 29,744 ठीक जबकि 981 की मौत हो चुकी है, जबिक गुरदासपुर में 22,296 संक्रमित, 21,483 लोग ठीक जबिक 799 की मौत हो चुकी है।

मामला, छह ठीक हुए

चंडीगढ़ में संक्रमण का एक

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल में सोमवार को कोरोना संक्रमण का मात्र एक मामला सामने आया है। आज छह लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि आज भी किसी की संक्रमण से मौत का मामला सामने नहीं आया है। चंडीगढ में अब तक 65,122 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं जबिक 814 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में अब 35 मामले सक्रिय बचे हैं।

पंचकृलाः माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, विश्वास फाउंडेशन व इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच पंचकूला द्वारा आज माता मनसा देवी परिसर में भैरों मंदिर के सामने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 73 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में मास्क, सामाजिक दूरी और सेनीटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। ब्लड बैंक सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला की

मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत रही सफलः हुड्डा

चंडीगढ़, ६ सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को सफल करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को बातचीत के माध्यम से किसान आंदोलन का हल निकालना चाहिए। आंदोलन का लंबा चलना किसी के भी हित में नहीं है।

आज यहां जारी एक बयान में हुड्डा ने कहा कि महापंचायत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पुरे देश का किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ है और वह एमएसपी की गारंटी चाहता है। इसलिए सरकार को सात महीने से बंद पड़ी वार्ता को फिर से शुरू करना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि वह पहले दिन से किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं।

किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए सत्याग्रह और शांति के रास्ते पर संघर्ष कर रहे हैं। प्रजातंत्र में सभी को अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार हासिल है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसान पूरे देश में आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी भी राज्य सरकार ने उनके खिलाफ लाठीचार्ज जैसी बर्बरता का इस्तेमाल नहीं किया।

शिक्षा के नवीन उपाय अपनाने वाले शिक्षक पुरस्कृत

हंसराज स्कूल में 'नैप 2020 इन एक्शन' आयोजित

पंचकूला, ६ सितंबर (जनसत्ता)।

विद्यार्थियों के बीच नवविचारों का संवर्धन और उनमें स्वतंत्र, रचनात्मक और विश्वसनीयता का पूट भरने के साथ-साथ उनके शिक्षण में नवीन पद्धतियां विकसित करने के लिए शिक्षक कुछ अधिक नए चुनिंदा उपाय अपनाकर उन्हें कक्षा में उपयोग कर सकते हैं।

वर्ष 2020 नेप 2020 के चलते शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। शिक्षक दिवस को समर्पित और शिक्षकों को नैप 2020 के सुझावों के अनुरूप शिक्षकों को मंच प्रदान करने हेतु हंसराज पब्लिक स्कूल की ओर से 'नैप 2020 इन एक्शन' नामक एक अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोजित कराई गई। इस प्रतिस्पर्धा का यह दूसरा संस्करण



था जिसे देशभर से भरपूर समर्थन मिला।

प्रतिभागियों को और से प्राप्त 100 प्रविष्टियों में से अंतिम दौर के लिए विख्यात शिक्षाविदों ने 20 प्रविष्टियां चुनी थीं। अंतिम दौर में भुवनेश्वर स्थित डीएवी शूल पोखरीपत की शिवानी दास, हंसराज पब्लिक स्कूल, पंचकुला की अरमीत कौर, सेंट सोल्जर स्कूल, पंचकूला की कोनिका जोशी और डीएवी स्कूल, सूरजपुर की पूजा अग्रवाल को चार वर्गों में क्रमवार फाउंडेशनल, प्राइमरी, मिडल और सेकंडरी स्तर पर प्रथम घोषित किया गया।

स्कूल प्राचार्य जया भारद्वाज के इस अनुठे प्रयास को मुख्यातिथि डॉक्टर मिथिली, सहायक प्रोफेसर, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडिमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली ने सराहा। अपने संबोधन में जया भारद्वाज ने विद्यार्थियों से कहा कि वे शिक्षकों से अधिकाधिक प्रश्न पूछे, न कि केवल सुनने वाले बनें।

प्राचार्या ने कहा, यह समय नई शिक्षण पद्धतियां को सीखने का है ताकि विद्यार्थियों को पुस्तकों से आगे भी कुछ सीखने को मिले। शिक्षा में 21वीं सदी की दक्षताओं को शामिल करना अहम है और यह समय की भी मांग है। बेशक इस से बच्चों का आईक्यू बेहतर होगा बल्कि उनका ईक्यू भी तेज होगा। मुझे इस बात की बड़ी ख़ुशी है कि शिक्षक कई मुश्किलों के बावजूद नैप 2020 के सुझावों को जल्दी अपना रहे हैं।

माता मनसा देवी मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर

टीम ने डॉक्टर अमित सामी व एम केयर ब्लंड सेंटर जीरकपुर की टीम ने डॉक्टर कार्तिक अग्रवाल की देखरेख में रक्त एकत्रित किया।

और 28 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी।



द न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400 001 सीआईएन नं. : L66000MH1919GOI000526 ,आईआरडीए पंजीकरण सं. : 190 दूरभाष :+91 22 22708263 ; फैक्स : +91 22 22652811

ई-मेल :investors@newindia.co.in ; वेबसाइट : www.newindia.co.in

शेयरधारकों को 102वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि ई-मेल के द्वारा भेजी जाने वाली 102वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन हेतु कम्पनी की 102वीं वार्षिक आम बैठक (''102वीं एजीएम'') बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स. पर वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

(i) कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'') के परिपत्र संख्या 14/2020 , 17/2020 , 20/2020 तथा 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 (सामृहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' सन्दर्भित) एवं सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 के अनुसार कम्पनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सहित एजीएम की सुचना उन सदस्यों के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोमवार, 6 सितम्बर, 2021 को भेज दी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। कम्पनी ने अपने सदस्यों को ''रिमोट ई-वोटिंग'' सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ ग्रहण की हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 24 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उन सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के उपयोग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे किन्तु उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बैठक की समाप्ति के 15 मिनट के पश्चात मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

102वीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम मतदान हेतु सदस्यों के पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 है। कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2021 तक शेयर धारण करता है वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी की वेबसाइट www.newindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित होंगे और भाग लेंगे। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में प्रावधानित हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.newindia.co.in अथवा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध एजीएम की सुचना से संलग्न ई-वोटिंग के निर्देशों का सन्दर्भ लें।

यदि आपका ई-मेल आईडी पहले से कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिया जायेगा। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारिता के मामले में अपने डीपी के साथ तथा भौतिक प्रारूप में उनके द्वारा शेयर धारिता के मामले में मैसर्स लिंक इनटाइम (इण्डिया) प्रा.लि. के साथ इसे पंजीकृत करा लें।

ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्य कृपया श्री महेश मसुरकर, निवेशक सम्बन्ध, लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (प.) मुम्बई-400 083,दूरभाष नं. : +91 22 49186270, ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर सम्पर्क करें। सदस्य सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबन्धक, चौथा तल, ''ए'' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400 013, टोलफ्री नं. : 1800 1020 990 /1800 224 430, ई-मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते द न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

जयश्री नायर

कम्पनी सचिव एवं प्रमुख अनुपालन अधिकारी

Chandigarh

हरियाणा में बंद होंगे थर्मोकोल उत्पाद,पानी के सीलबंद गिलास

मुख्य सचिव ने अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

प्रदेश में प्लास्टिक के झंडों पर भी रोक लगाएगी सरकार चंडीगढ, ६ सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार द्वारा प्लास्टिक के लिफाफों और अन्य प्लास्टिक सामान पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब थमोकील से बने रसोई के सामान जैसे कप, प्लेट, गिलास इत्यादि और औद्योगिक पैकिंग जो 50 माइक्रॉन से कम हो, पर भी प्रतिबंध लगामे के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, एकल उपयोग वाले पैन, सजावट के लिए थर्मोकोल, पैकिंग शीट, प्लास्टिक रिब्बन, टेट्रापैक के साथ आने वाले स्ट्रॉ, पीने के पानी के सीलबंद गिलास, प्लास्टिक मिनरल वॉटर पाउच इत्यादि पर भी प्रतिबंध

लगाया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों द्वारा दी गई। मुख्य सचिव सोमवार को चंडीगढ में राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक को पुरी तरह खत्म करने हेत् प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में उपयोग में लाए गए प्लास्टिक को रिसाइकिल करने वाले और कबाड़ियों को चिह्नित कर उनका संबंधित शहरी

स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत के तहत पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत प्रत्येक यूनिट से हर माह प्लास्टिक के कचरे और उसकी ढुलाई की रिपोर्ट लेना सुनिश्चित कर इस रिपोर्ट को मुख्यालय में भेजने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राज्य में सभी प्रकार के प्लास्टिक निमार्ताओं को चिह्नित करने के निर्देश दिए। इस कार्य के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल कर जिला स्तर पर टीम गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) के तहत उत्पादक, ब्रांड मालिक, विनिर्माता और थोक विक्रेताओं को शहरी स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत के साथ जोड़ा जाए, ताकि शहर या गांव में शत-प्रतिशत प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए स्वयं या एजेंसियों या उत्पादकों को शामिल कर प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा सके। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग पंजीकृत रिसाईकलर के माध्यम से करवाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी खुदरा विक्रेता और रेहड़ी फड़ी वाले उपभोक्ताओं को प्लास्टिक से बने कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या अन्य कोई भी पैकेजिंग सामान, जो नियमों के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं हैं, में वस्तुओं को न दें।

अंतरराष्ट्रीय हरियाणा शिक्षा विभाग की स्थापना करेगी सरकारः मनोहर

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हरियाणा शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने की दिशा में राज्य सरकार विचार करेगी मुख्यमंत्री ने सोमवार को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में 'इंटरनेशनल हरियााणा एजुकेशन सोसायटी' का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा के युवाओं की विदेशों में पढ़ने और नौकरी करने के सपने को साकार करेगी। इसके लिए 'विदेश सहयोग विभाग' स्थापित करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है।

हिम टेक्नोफोर्ज़ लिमिटेड (पूर्व में गुजरात आटोमोटिव गियर्स लिमि. के नाम से ज्ञात)

CIN: L29130HP1971PLC000904 पंजी. कार्यालयः गांव बिल्लांवाली, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205 ई-मेल : gujarat.gears@gmail.com वेबसाइट : www.gagl.net टेली: +91 (1795) 654025/654026

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 45वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, हाल ही में जारी 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 और परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 की अनुपालना में एजीएम सूचना दिनांक 13 अगस्त, 2021 में निर्धारित व्यापार को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी ने 27 अगस्त, 2021 को अंग्रेजी (फाइनेंशियल एक्सप्रेस) और हिंदी (जनसत्ता) अखबारों में प्रक्रिया के साथ नोटिस प्रकाशित किया था, जिसमें शेयरधारकों से कंपनी के साथ ईमेल पते पंजीकृत करने का अनुरोध किया गया था और यह कंपनी की वेबसाइट www.gagl.net पर उपलब्ध है।

कंपनी ने 'सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)' से वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए सेवाओं का लाभ उठाया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट उक्त नोटिस के साथ 06 सितंबर, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके ई-मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत थे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार एतद्दवारा सूचना भी दी जाती है, कंपनी के सदस्यों

का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन के लिए मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 से मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई-वोटिंग) वोट

डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 25 सितंबर, 2021 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और 27 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 20 सितंबर, 2021 को कंपनी का सदस्य है और शेयर रखता है, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके सभी प्रस्ताव पर वोट डालने का पात्र है। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की अनुमति

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामलें के लिए www.evotingindia.com के अंतर्गत हिल्प सेक्शन पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्यूवल तथा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज़") को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिखें।

एजीएम की सचना और विस्तृत ई-वोटिंग निदेशों के साथ वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.gagl.net और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

दिनांक: 06.09.2021

स्थानः बद्दी

कते हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड

ह./- अभिषेक मिश्रा कंपनी सचिव.

स्थान : मुम्बई

प्रबंधक सचिवीय तथा कानून

तिथि : ७ सितम्बर, 2021

www.readwhere.com

FINANCIAL EXPRESS

(CIN: L51101DL2006PLC148967) Read. Off: 3/14A 1st Floor Vijay Nagar. Double Storey. Delhi-110009 **Phone No.:** 011-32601237 **Mobile:** 9811024165

E Mail: tarinienterprisespvtltd@gmail.com NOTICE OF 15th ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 15th Annual General Meeting of the members of Tarini Enterprises Limited will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 04.00 P.M. at the registered office of the company at 3/14A 1st Floor Vijay Nagar, Double Storey, Delhi 110009 to transact the business as listed in the notice convening the said AGM.

The aforesaid notice and annual report for the financial year 2020-21 have been dispatched

(by email to members whose email addresses have been made available by the depositories or are registered with the company and by other permitted modes to members who have not registered their email address), in terms of section 101 of the companies Act 2013 read with Rule 18 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014.

The notice is also displayed at the website of the Company www.tarinienterprises.in and also at the website of the NSDL, agency providing electronic voting facility a www.evoting.nsdl.com

The Company is pleased to extend remote e-voting facility as an option, for its shareholders to enable them to cast their vote electronically. Alternatively, the members can also cast their vote by poll at the general meeting venue. In case a member desires to exercise vote by using remote e-voting facility then he/she should carefully follow the instructions given under the heading "instructions" in the notice convening the meeting. The option of remote e-voting is available from 10.00 A.M. on Monday, 27th September 2021 to 5.00 P.M. on Wednesday 29th September 2021. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avai the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. The cut-off date for determining eligibility to vote by electronic means or in the general meeting has been fixed as Thursday, 23th September, 2021.

Persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of the notice may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in

In case of any grievances connected with the voting through electronic means, you may call on toll free no.: 1800-222-990.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Friday, 24th September 2021 to Thursday 30th September 2021 (both days inclusive) for the purpose of 15th Annual General Meeting of the company

for TARINI ENTERPRISES LIMITED

Place: Delhi Date: 06.09.2021 **Abhay Chand Bardia** Director DIN 00009217

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LIMITED CIN L45101DL1967PLC004759 Regd. Office: 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001

Mobile: 91-9871053419, **Tel.:** 011-23353550, 66302268-72 Website: www.ansalapi.com: Email: shareholderservice@ansalapi.com NOTICE OF THE 54TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Members (Shareholders) of Ansal Properties and Infrastructure Limited will be held on Tuesday, the 28th September, 2021 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)

In accordance with the Ministry of Corporate Affairs' ("MCA") Circular No. 02/2021 dated the 13th January, 2021 read with Circular Nos. 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated the 05th May, 2020, 13th April, 2020 and 08th April, 2020, respectively (collectively referred t as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated the 15th January, 2021 read with Circular dated the 12th May, 2020 and pursuant to the the Depository Participants/ Depositories.

on the website of the Company www.ansalapi.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. These documents are also available on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. ('LIIPL') at https://instavote.linkintime.co.in.

B. Book Closure Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the shareholders of the Company will remain closed from Wednesday, the 22nd September, 2021 to Tuesday, the 28th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of holding the 54th AGM of C. Remote e-voting In compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act

read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the

Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members which would enable them to cast their vote electronically through e-voting services provided by LIIPL (through their portal https:// instavote.linkintime.co.in) on all the resolutions set forth in the Notice of the 54th AGM. The Members are requested to carefully read the instructions for remote e-voting mentioned in the notes to the Notice of the 54th AGM, before casting their vote.

cut-off date i.e. Tuesday, the 21st September, 2021, may cast their vote electronically (Remote e-voting/E voting at AGM) on the business as set forth in the Notice of the 54th AGM of the Company. The remote e-voting commences on Saturday, the 25th September, 2021 at 9.00 A.M.(IST) and ends on Monday, the 27th September, 2021 at 5.00 P.M. (IST Thereafter, the e-voting module shall be disabled by LIIPL. Once a vote on the resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently. D. Attending and E-voting at the AGM:

Members may join the AGM through VC/OAVM facility through the e-voting Platform

the commencement of the AGM. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at least 1,000 Members on a first come first served basis as per the above MCA Circulars. The Company is also providing facility for e-voting at the AGM through LIIPL ("InstaMeet" and the instructions of the same are also mentioned in the Notes to the Notice of the 54th

AGM. Members voting through remote e-voting option may also participate in the AGM and shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013, but shall not be allowed /entitled to vote again at the AGM. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their

voting rights at the AGM (through e-voting) vide link (https://instameet.linkintime.co.in when window for e-voting is activated.

E. Manner of getting email registered

i. Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a selfattested copy of PAN card (in case of non-individual shareholders, authority letter/ resolution is required) at shareholderservice@ansalapi.com or LIIPL at shamwant.kushwah@linkintime.co.in or shareholders can update e-mail address thorough the link viz. https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.

not updated their emails with the Depository Participant/Depository) may obtain the login id and password by following the instructions for remote e-voting/attending and voting at the AGM, as mentioned in the Notes to the Notice of 54th AGM which is available at the Company's website www.ansalapi.com and also on the website of LIIPL https:/ instavote.linkintime.co.in. However, if the member is already registered with LIIPL for remote e-voting, then he can use his existing Login ID/User ID and Password for casting the vote through remote e-voting/e-voting at AGM.

voting process (including remote e-voting). In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call them at Telephone: 022 - 49186000 or contact Mr. Pawan Singh Bisht, Manager (Secretarial) by writing an email on shareholderservice@ansalapi.com or call him at +919871053419.

> **General Manager (Corporate Affairs)** and Company Secretary

SURAJ INDUSTRIES LTD

Registered Office- Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212 CIN: L26943HP1992PLC016791 Email id- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org Telephone No: 01970-256414

NOTICE TO MEMBER OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND E-VOTINGINFORMATION

Notice is hereby given that 29th Annual General Meeting of M/s Suraj Industries Ltd will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 3.30 P.M. through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with the facility given by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and dated January 13, 2021 respectively ("MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, Dated January 15, 2021issued by the Securities and Exchange Board of India, without the physical presence of the Members at a common venueto transact the business mentioned in the Notice of 29th Annual General Meeting of

The Notice of 29th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2021 alongwith login details for joining the 29th Annual General Meeting through VC/OAVM facility including e-voting has been sent on Monday. September 06, 2021 through email to all those members whose email address have been registered with the Company or Registrar of Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars and the same are also available on the website of the company at www.surajindustries.org, stock exchange's website (www.bseindia.com) and on CDSL's website www.evotingindia.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA circulars, themembers are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through services provided by Central Depository Services Limited (CDSL) on all the resolutions as set forth in the notice of the 29th AGM.

The remote e-voting period will commence on Saturday, September 25, 2021at 10.00 A.M. and ends on Monday, September 27, 2021 upto 5.00 P.M. During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not cast their vote again through e-voting facility

Once the members cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the Notice of 29th AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on September 21, 2021 ('cut-off date'). Any person, who is a member of the Company as on cut-off date shall only be entitled to join the Annual General Meeting, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a member as on cut-off date should treat this notice for information Members who are holding shares in physical form or have not registered their e-mail address

with the Company/Depositories can obtain login credentials for e-voting as per the following For members holding shares in physical form, kindly provide your name, folio number, e

mail address to be registered alongwith scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar card by e-mail to the Company at secretarial.surajindustries.org. For members holding shares in demat form, please update your e-mail address through

your respective Depository Participant/s. Further, pursuant to theprovisions of Section 91 of the Act and rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer

Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday September 28, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 29th AGM. f you have any query relating to e-voting facility, please refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or contact CDSL on 022-23058542. In case of any grievances connected with e-voting facility, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill

Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542. For process and manner of voting by Electronic means please refer notice of 29th AGM. The results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of AGM and the results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and the website of CDSL.

The Company has been allotted ISIN (INE170U01011) by CDSL and (IN8170U01010) by NSDL for dematerialization of the company's shares. All the members are requested to kindly to get their shares dematerialized.

the Board of Directors Suraj Industries Ltd

Place: New Delhi Suraj Prakash Gupta Dated: 06.09.2021 (Managing Director)

Paramount Communications Ltd. CIN: L74899DL1994PLC061295 Read. Office: Paramount House.

PARAMOUNT

C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 **Ph.**: +91-11-45618800-900, **Fax**: +91-11-25893719/20

E-mail: pcl@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING OF PARAMOUNT

COMMUNICATIONS LIMITED TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/OAVM (OTHER AUDIO-VISUAL MEANS)

Notice is hereby given that:

- 1. The 27th Annual General meeting ('AGM') of the Members of Paramount Communications Limited is scheduled to be held on Tuesday, the 28th September, 2021 at 04.30 P.M through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual means ("OAVM") in compliance with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 05th May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. Company's Registered office i.e. C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 will be considered as venue for the purpose of AGM.
- In compliance with the above circulars, Notice of Annual General Meeting, Directors' Report, Auditors' Report and Financial Statement for the year ended March 31, 2021 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered/ available with the Company/RTA/Depository. The Date of completion of email of the notices to the shareholders is September 06, 2021. In case you have not registered your email ID with the Company/RTA/
- Depository, please follow below instructions to register your email id for obtaining annual report for FY 2020-21.

Demat Holdings: The Members holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their email addresses may temporarily register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. It is clarified that for permanent registration of email address and Bank Details in your Demat account, members are requested to approach the respective Depository Participant ('DP') and follow the process advised by DP.

Physical Holding: The Members holding equity shares of the company in Physical Form and who have not registered their email addresses and/or Bank Account details may register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013

- read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of the RTA i.e. Link Intime India Private Limited for providing e-voting facility to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Saturday, September 25, 2021 (09:00 am) and ends on Monday, September 27, 2021 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cutoff date i.e. September 21, 2021, may follow the detailed instructions given in the AGM Notice for accessing the e-voting platform. 5. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be
- allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not entitled to cast their vote again. Abhishek Mittal & Associates, Practicing Company Secretary (Membership No. F7273 & CP No. 7943) has been remote e-voting is contained in the Notice of the AGM.

Individual Shareholders holding securities in

Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

holding securities in demat mode with CDSL

Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in physical mode/ Institutional shareholders & e-voting service Provider is LINKINTIME: In case shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: -Tel: 022-4918 6000.

Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 22nd September, 2021 to Tuesday, 28th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. 3. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the

For Paramount Communications Limited

in case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions the SEBI (LODR), Regulations 2015 that the register of members of the company will remain closed

from the September 24, 2021 to September 30, 2021. Place: Varanasi

Dated: 07/09/2021 (Company Secretary)

Email:purshottaminvestofin@gmail.com, Ph. No. 011-46067802 NOTICE OF THE 32 AGM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

September, 2021 at 05:00 PM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) to transact the business as set out in 32 AGM Notice in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with MCA/SEBICirculars without physical presence of members at common venue. In compliance with the circulars, the Notice of virtual AGM and the Annual Report for the financial

year 2020-21 have been sent to all the members electronically to the e-mail ID registered by them with the Company/Depository Participants/RTA on or before 06.09.2021. The requirements of sending physical copy of the notice to the Members have been dispensed with vide relevant Circulars. The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2020-21 of the

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made

thereof and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Thursday, 23"September, 2021 being cut off date, to exercise their vote at the ensuing AGM. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of meeting (e-voting). The company has engaged NDSL to provide remote e-votingfacility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under

Wednesday, 29" September, 2021 at 5:00P.M.

The share transfer book of the Company will remain closed from Friday, 24°September, 2021 to Thursday, 30" September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General

The facility of joining the AGM through VC/OAVM shall 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting and will be available for members on

- capital of the company as on the cutoff date i.e. 23" September, 2021. Any person who comes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cutoff date i.e., 23"September, 2021, may obtain the login ld and Password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or info@masserv.com. Members are requested to login at https://eservices.nsdl.com/by using the remote login credentials. The link for electronic participation through VC/OAVM during the meeting will be available in shareholder/members login portal where the EVEN of the company will be displayed. The facility for appointment of Proxies by Members will not be available since the AGM is being held through VC/OAVM. A
- 011-26387281/82/83. Mr. Kundan Agrawal, a Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7631),

Proprietor, M/s, Kundan Agrawal & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company (www.purshottaminvestofin.in), and by

filing with the BSE Ltd. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company. 10. A member may participate in the AGM even after exercising his/herright to vote through

remote e-voting but shall not be allowed to voteagain in the meeting. Members who have not registered their email-id are requested to register the same by following the procedure given below: Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services

scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS

Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla industrial area phase-ii, New Delhi 10020 alongwith letter mentioning folio no. If not registered already.) Demat Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address

All shareholders/members attending AGM through VC or OAVM, who wish to speak or pose questions shall register themselves on or before 23" September, 2021 with their Folio no. DP

ID/Client ID, E-mail id and Mobile no. at the e-mail id of the Company i.e. pil.cs0187@gmail.com. For PurshottamInvestofin Ltd.

> Date: 04.09.2021 Memb No.: A55201 New Delhi

BOHRA INDUSTRIES LIMITED

301, Anand Plaza, Univercity Road, Udaipur (Rajasthan)-313001 CIN: L24117RJ1996PLC012912, website: www.bohraindusties.com email: bil@bohraindustries.com phone no: +91-294-2429513

NOTICE TO SHAREHOLDERS - REGISTER EMAIL ADDRESS

Shareholders are informed that 25th Annual General Meeting of the members of the Company is scheduled to be held on Thursday 30th September, 2021 at 3.30 PM to be held through video conferencing ('VC') / other audio visual means ('OAVM') in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI Circular dated May 12th, 2020 and January 15th,

The Notice of AGM along with the Annual Report 2020-21 "Annual Report" is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositories. In Case the Members who have not registered their email addresses with the

Company/Depository, please contact your depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The details (Name, Address, Contact No., Email and Client id/Folio no.) can be sent at investors@bohraindustries.com to receive Annual Report.

For Bohra Industries Limited

Date: 06/09/2021 Naresh Verma (Resolution Professional) Place: Delhi IBBI Regn. No. IPA-002/IP-N00054/2017-2018/10106

CHAMAK HOLDINGS LIMITED

Regd. Off.: 55-B, Rama Road Indl Area, New Delhi-110015 CIN: L51494DL1984PLC019684, Tel: 45691047, 3297555; E-Mail: chamakholdings@gmail.com, Web Site: www.chamakholdings.com NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING PROCEDURES & INTIMATION OF BOOK CLOSURE Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting of the Members of Chamak Holdings

Limited will be held on Tuesday, the 28th September, 2021 at 2.30 P.M at the registered office

of the company at 55-B, Rama Road Industrial Area, New Delhi-110015, to transact the businesses, as set out in the Notice dated 30th June, 2021. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for F.Y 2020-21 have been sent to all the members who's Email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2020-21 have been sent to all other

members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 4th September, 2021 The same is also available on the Company's website www.chamakholdings.com.

Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL)

the remote e-voting shall commence on September 22, 2021 at 9:00 a.m.;

the remote e-voting shall end on September 27, 2021 at 5:00 p.m.; the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 18th

2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote; members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the

member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be ntitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper: the Notice of AGM is available on the Company's website www.chamakholdings.com and also

and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com. You can also contact NSDL via email at evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company Secretary at the email ID cs@chamakholdings.com or the

Place: New Delhi Date: 06.09.2021

September, 2021;

Deepti Gupta Company Secretary

On Behalf Chamak Holdings Ltd

Him Teknoforge Limited (Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited) Regd. Office: Village Billanwali, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh-173205. Email-gujarat.gears@gmail.com, Website-www.gagl.net,Tel-+91 1795-654025 / 654026

NOTICE Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the

Company will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11:30 a.m. through video conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the notice convening the AGM dated August 13, 2021, in compliance with the circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, recent General Circular No. 2/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular dated May 12, 2020. SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The Company had already published notice with procedure in English (Financial) Express) and Hindi (Jansatta) newspapers dated August 27, 2021 requesting shareholders to register email addresses with the Company and same is available at the

Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company has sent the Annual Report for inancial year 2020-2021 along with the said notice on September 06, 2021 through electronic mode (e-mail) to those members whose e-mail addresses were registered with the Company

lotice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the register f members and share transfer books of the Company shall remain closed from Tuesday, he September 21, 2021 to Tuesday, the September 28, 2021 (both days inclusive) for the

rovide the members with the facility to cast their votes electronically (remote e-voting). esolutions using remote e-voting facility. The remote e-voting facility shall not be allowed

n case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under

The Annual report of the Company for financial year 2020-2021 along with the notice of AGM and detailed e-voting instructions is also available on the Company's website at www.gagl.net and Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

For Him Teknoforge Limited Sd/- Abhishek Misra Company Secretary, Manager Secretarial and Legal



Notice is hereby given that the Thirty First Annual General Meeting of the members of "KOTHARI FERMENTATION AND BIOCHEM LIMITED" will be held on Thursday, the 30th day of September, **2021 at 11:30 A.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to

their registered email address. The dispatch of Notice along with Annual report through e-mail will be complete on 9th of September, 2021. The Notice of the AGM and the Annual Report is also available on the Company's website, www.kothariyeast.in.

purpose of Annual General Meeting. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules framed thereunder and SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide E-Voting facility to all its members for transacting the business as set out in the Notice of the AGM. The following information relates to voting through electronic means:

1. Agency providing E-Voting facility NSDL (e-voting facility provided on the website www.evoting.nsdl.com) 2. Cut-off Date (Members eligible to cast vote 23.09.2021

3. Date and time of commencement of e-voting 27.09.2021 (Monday) from 9:00 a.m. 4. Date and time of ending of e-voting 29.09.2021 (Wednesday) at 5.00 p.m.

obtaining User ID & Password is also provided in the Notice of the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the

shall not be entitled to cast their vote again. The e-voting shall not be allowed beyond the above-mentioned time and date. Once the vote on a resolution is cast, subsequent change of the same shall not be allowed. Mr. V.K. Sharma, Practising

For **Kothari Fermentation & Biochem Ltd.**

Kavita Tanwar

Place : New Delhi Place: New Delhi financialexp.epapr.in यूनियन बैंक Union Bank

WHEREAS

receipt of the said Notices.

Date: 04.09.2021

Place : Delhi

Branch: Deepali Chowk, Pitampura, New Delhi -110034

POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

The Authorised Officer of Union Bank of India, Deepali Chowk Branch, under the

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with

rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued Demand Notices

on 09.04.2021 calling upon the Borrower(s) namely, M/s Swami Sales & Polymer

Industries, Through its Proprietor Anshul Mittal, Khasra No- 21/27, Gali No: 4, Near

Gopiatta Mill, Samaypur Industrial area, Delhi-110042, and Mrs Anshul Mittal W/o

Shri Sachin Mittal, C-553, Gali No- 12, Majlis Park, New Delhi-110033 and

Guarantor Mr Kewal Kishore Mittal, C-553, C-Block, Majlis Park, Adarsh Nagar,

New Delhi-110033 to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 55,43,301.68/-(Rupees Fifty Five lakhs Forty Three Thousand Three Hundred and one paisa Sixty Eight only) together with interest within 60 days from the date of The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of

the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the said Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 4th Day of september 2021. The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the

Union Bank of India for an amount of Rs. 55,43,301.68/-(Rupees Fifty Five lakhs Forty Three Thousand Three Hundred and one paisa Sixty Eight only) in the said accounts together with costs and interest as aforesaid. The Borrower's attention is invited to the provisions of Sub-Section (8) of Section 13

of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES Entire Free hold built up property bearing No: 553, 1st floor, block-C, out of Khasra No:

262/258/217/4, with the proportionate share/rights of the land under the said property situated in the area of Village Bharola Colony, known as Majlis park, Gali no:12, Delhi-110033 having its super area 111 Sq yds i.e 92.81 Sq mts in the name of Sh.Kewal Kishore Mittal S/o Sh.Gokul Chand. Boundaries: East: Property no: C-552, West: Property no: C-554, North: Passage, South: Property no: C-516

CHIEF MANAGER & AUTHORIZED OFFICER

UNION BANK OF INDIA

Shri Bholanath Carpets Limited Regd. Off: G.T. Road, Kachhawan, Varanasi - 221313, U.P.

CIN: L17226UP1973PLC003746l E-mail: cs@bholanath.biz

Tel.: 542-2620221 | Website: www.bholanath.biz We Carpet The World

Limite will be held on Wednesday, 30th September, 2021, at 10.00 A.M. at registered office of the company at G.T. Road, Kachhawan, Varanasi - 221313, U.P. to transact the business mentioned in the Notice of AGM sent along with the Explanatory Statement, Board's Report, Auditor's Report and the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2021. Notice of AGM and Annual Report for 2020-21, inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and Proxy Form have been e-mailed to the members whose email addresses have been registered with the Company / Depository Participant(s). The date of completion of email of the notices to the shareholders is September 4, 2021. The Annual Report is available on the Company's website: NOTICE IS FURTHER GIVEN that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 48th Annual General Meeting (AGM) of Shri Bholanath Carpets

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing electronic voting facility from a place other than the venue of AGM ("remote evoting") provided by NDSL, on all the resolutions set forth in the Notice. The details of remote e-voting are given below:

The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up share capital of

the Company as of the cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021. Once a vote is cast by the

The remote e-voting will commence on Saturday, September 25, 2021 (9.00 am) and end on Monday, September 27, 2021 (5.00 pm). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.

prevail and Ballot Form shall be treated as invalid.

Member, he or she or it shall not be allowed to change it subsequently Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after 04/09/2021 i.e. cut-off date for dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23/09/2021, may obtain the login details by sending a request at evoting@nsdl.co.in

all businesses specified in the accompanying Notice. The Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. A member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or by Ballot. If a member casts votes by both the modes, then voting exercised through remote e-voting shall

The Company is also offering the facility for voting by way of physical ballot at the AGM. The

Members attending the Meeting should note that those members who are entitled to vote but have not exercised their right to vote by remote e-voting, may vote at the AGM through ballot for

(FAQs) and e-voting User's Manual available under download section of www.evoting.nsdl.com or email at evoting@nsdl.co.in , Tel. 1800 222 990 (Toll Free No.) Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act 2013 and Regulation 42 of

> For Shri Bholanath Carpets Limited A. K. Pal

CIN: L65910DL1988PLC033799, Website: www.purshottaminvestofin.in,

PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED

Regd. off: L-7, Menz. Floor, Green Park Extension, Delhi-110016

In continuation to our earlier advertisement dated 25.08.2021, NOTICE is hereby given that the 32" Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 30" Day of

Company will be available on the website of the Company at www.purshottaminvestofin.in and on

the website of the BSE Limited at www.bseindia.com

E-voting period commences on Monday, 27" September, 2021 at 9:00 A.M and ends on The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 29"

The businesses set out in the notice of AGM, may be transacted through e-voting or e-voting

The voting right of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share

Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder,

Holding as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by

> Ankit Gupta Company Secretary

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 18th September, 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary as set out in the

from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that: The Ordinary as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic

any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 18th September,

on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com; and

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 21st September, 2021 to 28th September, 2021. (both days inclusive) for the purpose of Annual general Meeting of the Company.

CIN:- L29130HP1971PLC000904

website of the Company at www.gagl.net.

The Company has availed services for holding AGM through VC/OVAM from 'Central'

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the company is pleased to The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Saturday, September 25, 2021 and ends on 5.00 p.m. on September 27, 2021. Any person, who is member of company holding hares as on the cut-off date i.e Monday, September 20, 2021 is eligible to cast votes on all

eyond the said date and time. nelp section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Date: 06.09.2021 Place: Baddi

Tel: 011-26850004, Fax: 011-41664840, E-Mail: info@kothariyeast.in, Website: www.kothariyeast.in NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 23rd day of September 2021 to Thursday, the 30th day of September 2021 (both days inclusive) for the

only if they are holding shares on this date)

members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but

For any queries, the members may refer to the FAQ's and e-voting user manual as made available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990

Company Secretary

Date: 06th September, 2021

available during the AGM.

By order of the Board of Directors

A. 54th Annual General Meeting (AGM)

provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), the AGM of the Company shall be held through VC / OAVM and the Notice convening the 54th AGN along with the Annual Report for the Financial year 2020-21 have been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company or with The Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial year 2020-21 are available

the Company.

E-voting rights shall be reckoned in proportion to the paid-up value of the Equity shares registered in the name of the members as on cut-off date i.e. Tuesday, the 21st September, 2021. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on

provided by LIIPL (https://instameet.linkintime.co.in) by following the instructions provided in the Notes to the Notice of the 54th AGM. Such facility of joining (for Members) shall be kept open for 30 minutes i.e. 15 minutes before and 15 minutes after the scheduled time of

their e-mail address with the relevant Depository Participant or can register his/ her e-mail address through the above URL temporarily. 2021 and other members (who are holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company as well as members who have

The Result of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared the Notice Board of the Company at its Registered Office. APAC & Associates LLP, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the

> For Ansal Properties & Infrastructure Ltd. **Abdul Sami**

Login type

. Pursuant to Section 91 of the companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and

Company's website, at www.paramountcables.com, websites of the stock exchanges (NSE & BSE) and on the Link Intime website Instavote-Linkintime

> Rashi Goel Company Secretary & Compliance Officer

and 1800 224 430 or write to the Company at info@kothariyeast.in

person who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice of AGM for appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update In case of any query or grievance pertaining to e-voting and attending the AGM through 5. Helpdesk: Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat VC/OAVM, Members may contact Ms. Pallavi Mharte, Manager, NSDL, Trade World-A Wing. mode: In case shareholders/ members holding securities in demat mode Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai-400013. Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 1800 F. Other instructions: have any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL/ 1020990 and 1800 2244 30. Further, Members may also contact with Mr. Sharwan Mangla, A person, who has acquired shares and become Member of the Company after the dispatch CDSL, they may contact the respective helpdesk given below: General Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday, the 21st September, Helpdesk details

company.

Place: New Delhi Date: 06.09.2021

Place: New Delhi

of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd of September, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for

fair and transparent manner.

within forty eight hours of conclusion of the AGM, i.e. on or before 30th September, 2021. The Results declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of LIIPL after the result is declared and simultaneously be communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited. Due to the present COVID 19 pandemic, the result shall not be displayed or

Date: 06th September, 2021 Membership No. FCS 7135

demat mode with NSDL Individual Shareholders

purpose of annual general meeting. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of

transact the business as set out in the notice of 31st Annual General Meeting. The Notice of the AGM, Annual Report, instructions for e-voting, is being sent to all the members at

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch

Company Secretary, Noida, has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a